

तमकुही राज में नकली कीटनाशन बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़

हिन्दुस्तान टीम, पडरौना | Published By: Newswrap
Sat, 07 Aug 2021 05:11 AM

तमकुहीराज। हिन्दुस्तान संवाद

स्थानीय कस्बा के पुराने सिनेमा हाल के नजदीक एक मकान में संचालित नकली कीटनाशक बनाने वाली कम्पनी का भण्डाफोड़ कृषि विभाग के अधिकारियों ने किया है। मौके से अधिकारियों ने लाखों रूपए के नकली कीटनाशक दवाएं, रैपर, पैकिंग मशीन आदि बरामद कर मुकामी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नकली कीटनाशक दवा कम्पनी में पैकिंग कार्य करनी वाली दो महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। कार्रवाई को लेकर खाद बीज के दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति रही।

शुक्रवार को जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल को सूचना मिली कि तमकुहीराज कस्बा में फसलों में डाली जाने वाली नकली कीटनाशक दवाओं की अवैध फैक्ट्री चल रही है। सूचना के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी किया तो तमकुहीराज कस्बे में पुराने सिनेमा हॉल के पास फोरलेन के किनारे स्थित एक मकान में नकली कीटनाशक दवाओं का कारोबार होता पाया गया। कृषि विभाग की टीम ने मौके से टाटा कन्टाफ प्लस 236 लीटर नकली दवा, वायर इंडिया लिमिटेड की नकली नोटिवो 100 ग्राम की पैकेट में 20 किग्रा, नोटिवो का रैपर 350 पीस, टाटा का रैपर 200 पीस पैकिंग मशीन, जेके कंपनी का पीओपी बरामद किया। टीम ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में लेकर मुकामी पुलिस सहित उच्चाधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची तमकुहीराज चौकी पुलिस अवैध फैक्ट्री में पैकिंग कार्य करते हुए पाई गई दो महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में एडीओ एजी तमकुही राजेंद्र खरवार, केंद्रीय बीज गोदम इंचार्ज राकेश पांडेय, वरिष्ठ लिपिक उमेश कुमार दूबे आदि रहे। इस संबंध में थानाध्यक्ष तरयासुजान कपिलदेव चौधरी का कहना है कि मामले में आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/padrauna/story-fake-pesticide-manufacturing-company-busted-in-tamkuhi-raj-4302087.html>